



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2156]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 2015/आश्विन 15, 1937

No. 2156]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2015 /ASVINA 15, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2015

का.आ. 2721 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1740(अ) तारीख 24 जून, 2015 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 1369 भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड तारीख जून 27, 2015 में किया गया है। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य की तहसील बाली जिला पाली की भूमि में, गुजरात राज्य में सलाया से उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा तक पेट्रोलियम क्यूव के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे "सलाया मथुरा पाइप लाइन के अन्तर्गत डी-बॉटलनेकिंग परियोजना" के सम्बंध में पाइपलाइन बिछाई के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी ;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 14 अगस्त, 2015 से उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अनुसरण में संक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए ;

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील : बाली		जिला : पाली	राज्य : राजस्थान		
क्र. सं.	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	कोट बालियान	1081	00	07	74
		1082	00	08	89
		1094	00	14	10

[फा.सं.आर-25011/02/2011-ओआर- I]

पवन कुमार, अवर सचिव,

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2015

S.O. 2721(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 1369 Part-II, Section 3, Sub-section(ii) dated June 27, 2015 vide S.O. number 1740(E) dated 24-06-2015, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Bali, District Pali in Rajasthan State, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum crude from Salaya in the State of Gujarat to Mathura in the State of Uttar Pradesh by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the “De-Bottlenecking Project under Salaya-Mathura Crude Pipeline”.

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 14th August, 2015.

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, has submitted his report to the Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & M P Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

Tehsil : Bali		District : Pali	State : Rajasthan		
S.No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
1	2	3	4	5	6
1	Kot-Baliyan	1081	00	07	74
		1082	00	08	89
		1094	00	14	10

[F.No. R-25011/02/2011-OR-I)]

PAWAN KUMAR, Under Secy.